







9th K.M. Aligarh - Delhi Road,

CIN - L34109UP1994PLC016359, GSTIN - 09AACCP0664L1Z6, PAN - AACCP0664L

May 13, 2024

PAVNA INDUSTRIES LTD.

The National Stock Exchange of India Ltd, BSE Limited, New Trading Ring, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Rotunda Building, P.J. Towers, Bandra (East), Dalal Street, MUMBAI-400001 MUMBAI-400 051 **Scrip Code: 543915 Scrip Code: PAVNAIND** 

ISIN: INE07S101020

Sub.: Intimation as per Regulation 72 of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements), 2018 ("SEBI ICDR Regulations") - Issue of advertisement in newspapers in respect of Addendum to the Draft Letter of offer relating to rights issue of equity shares of the Company ("Rights Issue")

Dear Sir,

In relation to the Rights Issue and further to our letters dated 11th May, 2024, please find enclosed the newspaper advertisements having wide circulation issued by the Company and published today, i.e.13th May, 2024, in respect of matters specified under Regulation 72 of SEBI ICDR Regulations, regarding filing of Addendum to Draft of Letter of Offer for the Rights Issue in all editions of the following Newspapers:

- Financial Express (English national daily newspaper) i.
- Rashtriya Sahara (Hindi national daily newspaper) ii.
- iii. Pravada (Regional language daily newspaper)

The same shall be uploaded on the Company's website www.pavna.in.

This is for dissemination on your website.

Yours faithfully

For Pavna Industries Limited

Charu Singh **Company Secretary & Compliance Officer** M.No. A 48257

**FINANCIAL EXPRESS** 

### SURPLUS STOCK, 'ABOVE-NORMAL' MONSOON

### Govt may consider lifting be raised in full Budget curbs on rice exports

GIVEN THE HUGE surplus of rice stocks and the forecast of an 'above

GIVEN THE HUGE surplus of rice stocks and the forecast of an 'above normal' monsoon that is likely to boost paddy sowing in the kharif season, the government may need to look at lifting the restrictions on rice exports imposed last year. Sources told FE that the government will assess the sowing of kharif paddy—expected to commence next month—before taking a call on emoving curbs on shipments. "We need to look at lifting restrictions on rice shipments as kharif crop prospects look bright," an official said. With the onset of monsoon over the Kerala coast next month, sowing in charif paddy which has a share of 80% in total rice output, is carried out the June 1914 period with the progress of rains across the country. Last month, the India Meteorological Department (IMD) forecast above mormal "ariafial in June-September this year, with 90% chances of the rains being in the "normal-to-excess" range. Last year, precipitation was attach and below normal which had

rains being in the "normal-to-excess" range. Last year, precipitation was patchy and below normal, which had hit the rice output.

"Surplus stocks and prospects of bountiful monsoon rains augur well for lifting restrictions on rice

Focus on factor market reforms:

says ADB chief economist KUMAR DIPANKAR New Delhi, May 12

INDIA NEEDS TO focus on factor market reforms like land and labour to propel India's growth to a double-digit trajectory, ADB chief economist Albert Park has said. "There are settll concerns that the basic factor markets like land and labour in the formal sector of unemployment in India are still small. So, you really want to formalise those," he said. The factor market reforms inc-

The factor market reforms inc-

The factor market reforms include land, labour, energy, and access to credit, among others, which are critical factors for production. Talking about other reforms, Park said further regulatory ease and ease of doing business and deregulation of tariffs by simplifying and reducing them will help increase india's share in the global value chain.

value chain.
The government has set a target of \$2 trillion in exports of goods and services to be achieved by 2030.

services to be achieved by 2030. Increasing goods exports requires India to integrate into global value chains, which must entail India specialising instages of production, where it has a comparative advantage as opposed to necessarily looking to be present in the entire value chain, as per the recent ADO report released by ADB. Besides, he said, there has to be higher investment in human capital because learning outcomes are still relatively poor compared to more successful economies. —PTI

\$1-trn exports goal: Report on infra needs by Aug-Sept

THEASIAN DEVELOPMENT Bank (ADB) will complete by August-September its study on the infrastructure required to meet the demand for movement of higher volumes of goods as the courty aims to more than double its exports in the next six years.

The study will pinpoint georgaphies and the kind of intrastructure required to handle higher volume of goods movement which will then be shared with infrastructure ministries for

with infrastructure ministries for incorporation in their capacity augmentation plans, a senior gov-ernment official said.

augmentation plans, a senior government officials aid.
According to projections when exports touch \$1 trillion by 2030 from \$437.06 billion in 2023-24, the imports would be around \$1.5 trillion against \$677.2 billion in least fiscal. This requires almost doubling the capacity to handle the surge in volumes at ports, airports, roads and railways.

"The study is trying to identify what kind of infrastructure is needed at entry and exit points to meet anticipated demand and the clusters of exports where these capacities have to be built up," the official said.

financialen.ep..in

MUKESH JAGOTA New Delhi, May 12 THE ASIAN DEVELOPMENT Bank

# INDIA'S RICE EXPORTS

exports," an official said.

While retail prices of rice rose by 12.69% on year in March, the price ise is expected to soften in the next few months due to higher base effect. The inflation in rice prices has been in double digits since October 2022.

The rice stocks held by the Food Corporation of India (FCI) is currently close to four times the buffer for July 1 despite a 7% of all in procurement in the current season (October-September) compared with the same period asts eason. Currently, FCI holds 53.19 million tonne (MT) — 31.81 MTof rice stocks and 21.38 MTof grain receivable from millers. The stock is against the buffer of 13.54 MTof ruly 1.

In addition, officials said FCI so far

In addition, officials said PCI so far has received purchase indent for 1.5 MT of rice from the agencies such as Nafed, NCCF and Kendriya Bhandar forselling Bhand rice. About 0.71 MT of grain has been lifted by these agencies for sid 25 dution through retail outsets the side of the

### FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD. AUCTION NOTICE

FEEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD, AUCTION NOTIC

This is to notion the poole; at large, that FEEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD, Yas ecoled to contain; of Gold ornaments belonging to accounts (inentiment belong) with have become overvice or white contains to the control of Gold ornaments belonging to accounts (inentiment belong) with have become overvice or white control of Gold ornaments belonging to accounts (inentiment belong) with have become overvice or white control or the control of Gold ornaments belonging to account (inentiment belong) (income) of Gold ornaments belonging to account (inentiment belonging) (income) (incom

# MGNREGA outlay may

revised estimate for 2023-24 was the same and official sources say, the allocation was around this level.

"We anticipate arise in demand for work based on an internal assessment," said the official, adding: "The government aims to build 20 million more houses under the Pradhan Mantri Awasa Yojana-Gramin (PMAY-G) in the next Tive years."

In the interim Budget speech, finance minister Nirmala Sitharaman



had said: "Two crore (20 million) more houses will be taken up in the next five years to meet the requirement arising from the increase in the number of families."

Since MGNREGA is a demand-

Since MGNREGA is a demand-driven programme, funds will be allocated as per the requirement, the official said.

The Centre is also taking several initiatives to plug leakages, which some estimates suggest, could be around 30% of the annual spending. From January 1, the government has made the Aadhaar-Based Payment System (ABPS) mandatory for payment of wages.

### 449 infra projects hit by ₹5-trillion cost overrun

ASMANYAS 449 infrastructure projects, each entailing an investment of ₹150 crore or above, were hit by acost overrum of more than ₹5.01 crillion in March, anofficial reports tated. According to the ministry of statistics and programme implementation, which monitors infrastructure projects worth ₹150 crore and above,



THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCIEBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



(Please scan this QR Code to view this Addendum to the DLOF)



#### PAVNA INDUSTRIES LIMITED

Perus Locks Private Limited<sup>2</sup>, an arrivate limited company, in accordance with the provisions of the Companies Act, 1970, passand 4 april 19, 1994 issued by the RoC. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our locks Limited and a firsh certificate of incorporation on November 13, 2009 was issued by the RoC. Thereafter, name of our Company by Systems Limited<sup>2</sup> and a firsh certificate of incorporation dated November 17, 2009 was issued to our Company by the RoC. on changed to Perus Industries Limited<sup>2</sup> and a firsh certificate of incorporation dated Movember 17, 2019 was issued to our Company by the RoC.

d and Corporate Office: Vimlanchal, Hari Nagar, Aligath, 202 001, Uttar Pradesh, India Tel: +91 8006409332; E-mail: cs@pavnagroup.com; Website: www.pavna.in Contact Person: Charu Singh, Company Secretary and Compliance Officer, Corporate Identification Number: L34109/IP1994PL/C016359

ISSUE OF UPTO 48,72,900 EQUITY SHARES OF FACE VALUE F 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF 16 | PER EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF 16 | PER EQUITY SHARES, OTHE "ISSUE PRICE", A GEORGATING UPTO F 10 | LAKE OWN A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHARE PRODRESS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 10 | RIGHTS EQUITY SHARES) FOR EVER [10] FULLY FAILDED FOUNT SHARES) HERE PRICE | PEULLY FAILDED FOUNT SHARES) SHOR EVER IN THE ESSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES SO FOR EVER IN ESSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES SO FOR EVER IN ESSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES SO FOR EVER IN ESSUE PRICE SHARES FOR FURTHER DETAILS, PLEAS REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 218 OF THIS DRAFT LETTER OF OFFER.





Asset Recovery Branch, D-26/28, Connaught Place, New Delhi-110001 (Working at M-35, First Floor, Outer Circle, Connaught Place,

**SALE NOTICE** for sale of movable / Immovable

E-Auction Sale Notice for Sale of movable / Immovable Assets under the Securitation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 20 and with Rule 3 for 9 of the Security Interest Enforcement, Rule, 2002

Notice is hereby given to the public in general interpretation of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 20 and with Rule 3 for 9 of the Security Interest Enforcement, Rule, 2002

of loads (Secured creditor), will be sold on "As is where is," As is what is" and "Whatever there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Union Bank of India from the halve manifested Greater also mentioned hereunder.

1	S		Description of the movable / immovable property put for auction	Constructive or Physical Possession taken	Dues to be recovered from Borrower/ Guarantor (Rs.)	Reserve Price (Rs.)  EMD  BID Increment Amt.	of Auction	Encumbrances known to bank/SA Pending, if any.
1 )		Plantfultri Port No. 14. Chrois More, Actorul Rajastens-33105 Corporate Office: 4-F. Forence Will. Subantia Lell-Saccto-57, Gurgano 1. Mr. Hardeep Singh So Rajander Villags-Suhrar, VPO Motel Khera, Navan, Dest Jind, Haryana-12116 2. Mr. Verneter Singh So Satah, Villags-Garciand, Infras Namaca, Dust Lind. Haryana-12116 2. Mr. Verneter Singh So Satah, Villags-Garciand, Infras Namaca, Dust-Lind. Haryana-12116 14 (1992). Destination of the Common Control of the Con	1. All this part and part of a Residential House No. 20-P. Sector 7. Urban Estate, Theiriki & Diett. Kannel-12001 in the name of Arun Hoods massuring 53.1. 26, y. Yard in the name of Arun Hoods. Boundaries of the property as follows: North: Road, South: House No. 206, East: Green Belt, West: Road  2. All that part and parcel of Residential House No. 538(P), HIG, Housing Board Colony, Sector-4, Karnel-12001, Haryana measuring 105.72 59, Yards in the name of Sannosh Numari, Norm: Curber Property, South: Road, East: House No.	Possession	Rs.2,29,38,000 as o	₹ 1,87,65,000/- ₹ 18,77,000/- ₹ 1,87,650/- ₹ 60,20,000/-	12:00 Noon to 05:00 PM (with unlimited extension of	SA No: 128/2024, DRT II, Delhi and WP, C) No. 23367/2021, Punjab & Haryana High Court at Chandigarh
,		Colony, Sector 4 Karmal Hanyana-132001 2. Jagdah Nain Sie Shri Rati Ram Nain, E-47, Florence Willa Sushant Lok III., Sector 57, Gurgaon, Haryana- 122001	637, West: Road  A. All that part and parcel of Commercial Land and Building (GF+FF) situated at Plot No 14, Chotia More, Kotputti, Jaipuri[Rajasthan], Khasra No 78.2.6, 7/1972/0.18,02.0.90.0.3 Total Kita 4 Rabba 1.05 Hectare in the name of Mr. Jagdisht Manis Ro Rat Ram Nain, Mr. Arur Hoods So Dhamangal Hoods, Mr. Rohitash Gujiar Sio Sona Gujiar and Sandeep Kumar Sio Balwan Singh, North: Other Property, South. These Property, South. Property South. These Transport Modern Sio Rail Manis Robitash Commercial Commer			₹ 60,200/- ₹ 1,59,10,000/- ₹ 15,91,000/- ₹ 1,59,100/-		

For registration, login and bidding rules visit https://www.mstce.commerce.com/auctionhome/lbap/lindex.jsp
- For delabel terms and conditions of the sale, piesse refer to the link provided in https://www.unionbankofindia.co.in/english/Tendel/viewAllAuction.aspx
Authorised Officer is Authorised Officer-Mit. Ved Prakaish, Chief Manager, M-9416079482

Date: 11-05-2024, Place: New Delhi

EMD amount can be submitted on or before commencement of e-aud

Authorised Officer, Union Bank of India

### भगवान परशुराम शोभायात्रा के लिए ब्राह्मण महासभा की बैठक

जहारी। करवा टप्पल स्थित जमुना खण्ड प्राइमरी स्कूल टप्पल में रविवार को भगवान श्री परशुराम ब्राह्मण महासभा की बैठक का आयोजन किया गया जिसमे दिनांक 19.05.2024 दिन रविवार को टप्पल में ब्राह्मण सम्मेलन व भव्य झाकी न ब्राह्मण समावन व नव्य झाका, डीजे, ढोल एवं भगवान परशुराम जी कं भजनों के साथ भव्य शोमायात्रा का आयोजन किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र शर्मा ने की। इस अध्यक्षता राजद्र शमा न को। इस मौके पर ब्राह्मण सभा के महासचिव अखलेश कुमार जहानगढ़ ने बैठक कहा कि मगवान श्री परशुराम जी किसी एक जाति के नहीं बल्कि सभी के हैं और कहा कि प्रत्येक



से अधिक संख्या में पहुँचकर इस मीळे पर राजेंद्र शर्मा विष्णु शोमायात्रा को सफल बनाने में सहयोग करें एवं टप्पल ब्लॉक के प्रेमपाल शर्मा धर्मेद्र शर्मा, कुलरीप सभी गाँवों के ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे।

डॉक्टर दीपक शर्मा, कैलाश शर्मा, रिकू शर्मा, गौरव शर्मा, विजय राज

गोड़, सुधीर शर्मा, सौरव शर्मा, प्रवीण शर्मा, लालाराम शर्मा आदि मौजूद रहे।

#### ट्रैक्टर-ट्राली से टकराई बाइक, युवक की मौत

बाइक, युवक की मीत असीपड़ा गुकक की बाइक गांव में स्वराब खड़े ट्रैक्टर-ट्राली से टक्का गाई । इरदेशे में गंभीर प्रायक बाइक सवार गुकक की आनम-कानन उपचार के दिए खुजों के जाया गया। जहां पर देर पत में बिकित्वकों में उसे मृत प्रांच करवंदा नगतिया में 11 मई की शाम बाइक ट्रैक्टर-ट्राली से टक्का गई। हादसे में बाइक सवार की साथ का निकास में 11 मई टकरा गई। हादस म बाइक सवार की युवक की मीत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सूरज पाल सिंह का 27 वर्षीय बेटा दीपेश उर्फ दीपू की बाइक गांव में खराब खड़े ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई। हादसे में गंभीर पायल दीपेश की आनन-फानन उपचार के लिए खुर्जा ले जाया गया। जहां पर देर खुआ ल आया पंचा। जहां पर पर रात में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी होने पर परिवार में मातम छा गया।

हरदुआगज क्षेत्र में ढाबे का ताला तोडकर

हरदुआगाज क्षेत्र में ढांब को ताला ताहकार एक लाख कीमत का लोहा है। या घोर असीमह । याना व करबा हरदुआगंज क्षेत्र के साधु आक्षम योको असीमां ताब वरेता के निकट वेट ढांबे के कमरी का ताला तांक़कर बार एक लाख कीमत का लोहा घोरी कर ते गए। बरीवा मील के निकट यामघाट पर प्रमांद कुमार का फंजी वाबा गंखीलत है। प्रमांद कुमार ने बताया कि डांबा पिछले सम्वाह से बंद चल रहा है। गुक्रकार की पत अक्षात चंद योक के कमरी का ताला तोंक़कर दक्षमं रही छह लोहे का गाटर, चारा काटने की मशीम और अन्य सामान ले गए।

#### अश्लील फोटो–वीडियो कर रहा वायरल. एसोसिएट प्रोफेसर ने कराई रिपोर्ट दर्ज

अलीगढ़। युवती ने युवक पर आरोप लगाया है कि युवक उसके साथ तीन साल से संपर्क में था। अब आकर उसने निशांत से रिश्ता तोड़ दिया तो वह जानकारी के लोगों के खादस्यए पर अस्तील फोटो और वीडियो भेज रहा है। डाजास्तरणा करने की बता कह कर दबाव बना रहा है। उत्तरहरणा करने की बता कह कर दबाव बना रहा है। उत्तरपद के एक मेडिकल कॉटिंग में बतीर एसीसिएट प्रोफेसर कार्यरत गुवती ने गाठियागावा करने की रिपोर्ट वर्ज कुक रहा अस्तील करने की रिपोर्ट वर्ज कराई है मुद्दाती के अनुसार आरा. भी नियात पढ़िता निवासी एकता तिहार कालोगी स्तरीय गरें के गाठियागावा उसके साथ तीन साल से संपर्क में बा अब आकर उसने नियात से रिस्ता तोई दिया अबाकर उसने नियात से रिस्ता तोई दिया जा कालर तोड दिया तो वह जानकारी के उसने निशात से रिश्ता तोड़ दिया तो वह जानकारी के लोगों के व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो और वीडियो मेज रहा है। आत्महत्या करने की बात कह कर दबाव बना रहा है |पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है |

### रयारील में चलाया गया सफाई अभियान



प्रावदा संवाददाता

जड़ारी। टप्पल थाना क्षेत्र के गांव स्थारील में रविवार को जल सरक्षण व सफाई अभियान चलाया गया जिसमे ग्रामीणों ने अपना श्रमदान किया एवं पूरे गाव से लगभग तीन ठेली कूड़ा—करकट, पिन्नी ग्लास आदि सफाई में निकले व पूरे गांव को

किया और नालियों में गोबर पिन्ती ग्लास ना बहाने की अपील की व लोगों को स्वच्छ रहने संबंधी बाते बताई जिसमें सभी गाववासियों ने पूरा सहयोग

किया। इस मौके पर मुख्य रूप से डॉ० ब्रह्मजीत सिंह सबेदार देवेंद्र

तेजवीर प्रधान, राज मास्टर सदीप सदस्य, सूबेदार इंद्राज कृष्णपाल, रमेश भगत, चौधरी लक्ष्मण सिंह, विकास चौधरी, जीतू, रामकिशन सेठ, चौधरी मनवीर सिंह, प्रकाश, लव चौधरी आदि अन्य ग्रामीण

### मदर्स डे पर विद्यार्थियों ने बनाए ग्रीटिंग



प्रावदा संवाददाता

अलीगढ़। खैर रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर से कंडरी स्कूल में मदर्स डे मनाया

# गया। इस अवसर पर विद्यालय में प्रधानाचार्य यहांबार सिंह ने कहा बनाए गए ग्रीटिंग कार्ड बहुत सुंदर अपनी मां के प्रति मार्चा को व्यक्त कि मदर्स डे अपनी मां के प्रति हैं कार्यक्रम का संयोजन शिक्षिका कलते हुए विद्यार्थियों द्वारा ग्रीटिंग कार्ड बनाए गए ग्रीटिंग कार्ट बनाय के करने का दिन हैं। विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थ सुदिती में नि शुल्क कैंसर निदान जाच शिविर आयोजित

प्रश्वा संवादधाता

निप्तुपी शावर के देवी बाईमास रोड स्थित सुदिती ग्लोबल
फ्रिक्टी शिवालम में एक दिवलीय नियुक्त कैंसर जांच शिविर
का आगोजन किया गया। जिसका आयोजन सुदिती शिकिए एवं
अनुस्थान फार्टकेशन और गावित्य के कैंसर अस्मात एवं
अनुस्थान फार्टकेशन और गावित्य के कैंसर अस्माता एवं
अनुस्थान संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। शिविर
का उदयादन मेनपुरी के प्रिवृद्ध विकित्सक डांच पी या पात्र मांत्र इस समृद्धि पाठक, विद्यालय के विष्ट प्रधानायों डांच रहुमा गोंडन ने किया। विद्यालय की प्रशासनिक प्रधानायों डांच रहुमा गोंडन पढ़ प्रबन्ध नियंक्त का जल नांका, ने सभी अविधियों का स्वागत एवं सम्मान किया। शिविर में मधीजां की जांव डॉ. गुंजन श्रीवास्त्व, और उनकी टीम में शामिल डां सीमा शिवरर, डा संदीय कुमार पानी, डांच दीवन संकड़ों लोगों ने इस शिविर का लाम उच्छा और गई। इस दीवन संकड़ों लोगों ने इस शिविर का लाम

उठाया और निशुत्क कैंसर जीच करवाई। शिविर में आए लोगों को डॉ. गुजन श्रीवास्तव ने कैंसर के लक्षणों के बारे में जागरूक किया गया और साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि शुरुआती दौर में ही कैंसर का पता चलने पर इसका

राफल इलाज रामव है। शिविर में नियुत्क बायोग्पी, एफएनएसी और पैप स्मीयर जींच की सुविधा भी उपलब्ध थी। इतना ही नहीं, उन्हें विभिन्न बीमा कंपमी की कैशलेस सुविधा के बारे में भी जानकारी दी गयी। डॉ. गुंजन श्रीवास्त्रक संकोठांजी स्वर्णम में बताया कि केंसर एक गंभीर बीमारी हैं, लेकिन इसका सफल इलाज समब है। लोगों को नियमित रूप से अपना स्वास्थ्य जींच

इलाज संभव है। लोगों को नियमित का से आपना स्वास्थ्य जींब कराते रहना चाहिए और शरीर में किसी भी तारह के असामान्य त्रवाण दिवने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेगी चाहिए। विवासय के विरुष्ट प्रायानावार्य का राम मोहत ने कहा कि इसिवेंद के माध्यन से उत्तका नुष्ट कर देश होते हैं है कि सिवेंद के माध्यन से उत्तका नुष्ट कर देश की ती में किस का पता बतने से इसका इताज आसान हो जाता है। इसके आजाता उन्होंने सह में बताया कि शिवेर में किस के अलाता उन्होंने सह में बताया कि शिवेर में आए कई लोगों में किस के सुरक्षाती तथा प्राप्त गर है। ऐसे लोगों को आने के इलाज के लिए परामर्थी दिया गया है। उन्होंने फार्यो हुये सभी विकित्सकों का आगार व्यक्त करने हुये कहा कि कैंसर जे सुरक्षाती के बारे में आगरकरता अगियान एक बहुत ही अवझे समाजिक पहल है।

### रथापना दिवस पर भण्डारा आयोजित



**डगलास।** करवा गोण्डा स्थित माता

5 वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर

आयोजन किया गया। संतों ने पहुंच प्रभु भक्ति का गुणगान किया। सूबेदार नरेश गौतम ने लोगों को मूर्ति स्थापना दिवस की बधाई देते हुए आपसी माईचारा बनाए रखने की अपील की। स्पतास करवा याण्डा स्थित माता साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रमु भीके का गुणपान किया। स्वेदार संदेश मिद्र में खानिक मंद्रियों को मूर्ति खेणपान किया। स्वेदार में सिद्र में स्थापित में दुर्गों को मूर्ति खेणपान विक्रम पर हवन और पूजा—पाठ के बाद संदों के प्राच मुक्ति की प्राच दिवस की बधाई देते हुए आपसी आयोजन किया गया। क्रांच में स्वेद में में दुर्गों की मूर्ति की प्राच क्रांच में हान क्रेंच स्वेद में स्वेद में में दुर्गों की मूर्ति की प्राच महेरा मौतम, यूई सिंह, सतन्द सिंह संदेश विषया के प्राच प्रतिचात की गई थी इस अवसर पर महेरा गीतम, यूई सिंह, सतन्द सिंह सिंद में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति का पर्णित को प्राच का आदि मौजूद थे।

जर्जर वीसीबी बदलने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित ज्ञार्चिप्तवा सेवारक कार्यक्रित का आहे. नाजूर वीसीबी बदलने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित ज्ञार्चिप्तववा सेवारवाता)। करवा जारी देहात रिव्य विजलीयर पर सोमवार को 3361 क्षेत्र किवालीयर जारीरी देहात पर सुबह 9 बजे से आम 5 बजे तक जर्जर वीसीबी बदलने का कार्य किया जाएगा जिसके वतते विजली पर से जुड़े गाँव जलाव. पुर. स्कुमाना, मेगपुर, खेड़िया बुजुरी, किचुपुर, फलपुर, विचुप्री, कुरागा, कुला नगता, खंडेहा, नगर कला, गांगल खुर्द, ताहरपुर, हसमुद्र, प्रतिवाद, प्रतिवाद, क्षार्चण, आविद क्ष्याप्ति वाधित संदर्भी क्षार्चार अधिक अपने किया क्षार्च के उत्तर कराया के जानकारी प्रवीम कुमार एसडीओ जहारी हारा दी गयी है।

### टोल प्रबंधन व किसान नेताओं के बीच बनी सहमति, मैसेज के जरिए निकाले जाएंगे वाहन

अलीगढ़। भाकियू टिकैंट गुट के पदाधिकारियों की गाड़ियों टोल से निक. ालने पर तैनात कर्मियाँ से विवाद हो गया था। अभद्र व्यवहार को लेकर पदाधिकारियाँ ने विरोध किया। उन्होंने मांग थी कि अभद्र व्यवहार करने वाली महिला टोलकर्मियाँ को हटाया जाए। साथ ही किसान नेताओं के वाहनों को मैसेज के जरिए निकाले जाए।भारतीय किसान यूनियन टिकेंट व जाए मासताय किसान यूनयन १८कट व टोल प्रवधन के बीच 11 मई को सहमित बन गई है I प्रवधन के पदाधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदनी में टिकेंत गुट के नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा 17 मई को माकियू ज्ञापन सौंपा **।**7 मई को भाकियू

टिकेट गुट के पदाधिकारियों की गाड़ियाँ टोल से निकालने पर तैनात कर्मियां से विवाद हो गया था। अभद्र व्यवहार को लेकर पदाधिकारियों ने विरोध किया। 11 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम के चलते प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा के साथ अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड के किसान नेताओं टोल के गेट नंबर एक लाइन में धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग थी कि अभद्र व्यवहार करने वाली महिला टोलकर्मियों को हटाया करन वाला महिला टालकामया का हटाया जाए। साथ क्षे किसान नेताओं के वाहनों को मैसेज के जरिए निकाले जाए। सूचना पर एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, एसडीएम हीरालाल सैनी, क्षेत्राधिकारी खैर राजीव द्विवेदी पहुंच गए।

सूचना

करती हैं। प्रार्थिनी श्रीमती श्रिमला पत्नी स्वक्र श्री यतेन्द्र कुनार निवासी म0नं0-1040 नगला कलाव बुद्धविहार कॉलीनी, धाना बन्नादेवी किका अलीमहा

## शहीद रमृति चेतना समिति जिलाध्यक्ष अमलेश कठेरिया का हुआ सम्मान

प्रावदा संवाददाता कुरावली। शहीद स्मृति चेतना समिति (पजी) के तत्वाक्धान में आयोजित जलदान परम्परा को निभाते हए,दिल्ली शिक्षा निदेशालय के विद्यालय में जल प्रशीतक,व जल छनित्र दान में देकर छात्र— छात्राओं की प्यास बुझाने के लिए केवल शहीदों को याद नहीं किया गया बल्कि विशासत को सहेजा गया! लोग चाहते हैं कि भामाशाह तो हों लेकिन महाराणा प्रताप न वनना पडे! घट अजीव विडम्बना है! भामाशाहों का खजाना तभी खुलता है जब महाराणा प्रताप खुलता ह जब महाराणा प्रताप किसी आतताई का सामना युद्धभूमि में कल रहे हां,और उनके बच्चे जगला में घास की रोटियाँ खाने बैठे हां तुरन्त ही उस घास की रोटी को जगली बिलाव छीनकर भाग जाए! तभी भामाशाहों के खजाने खुल जाते हैं! जब दशम् गुरुगोविन्द सिंह के साहबजादों के गुरुगाविन्य सिंह के साहबंजाती के अनितम संस्कार के लिए स्थान न हो तभी समाज से सोने के सिक्के विभाकर टोडरमल जैसे दानी मामाशाह भी आ जाते हैं! याद रखिए मारतम्मीन दानदाताओं से रिक्त नहीं, हाँ महाराणा प्रताप तो बनना प्रदेगा,कुंवर जोरावर सिंह व



कुंतर फतेंह सिंह तो बनना पडेगा!
व्याग के साथ दान की महिमा है!
यह विचार उपर्युक्त संस्था शाहीद
स्मृति चेतना समिति ( पंजी) के
ध्वन्द्रस्थीभे महाराणा प्रताप
जाराती के अुक्तरस पर दान की
महिमा के रूप में करता किए। इस
समारोह में संस्था के राष्ट्रीय
समारोह में संस्था
सुवत्त तर्वीमा
युक्त तर्वीमा
युक्त तर्वीमा
संस्थापक
सत्तरम्य,आदि उपस्थित थे। यह
गोरव की बात है कि मैंनपुरी
जनपद से श्री अमर्केश कुमार
कठीरिया बुंतपुर कुरावती को
समिति का मैंनपुरी जनपद का
अध्यक्ष य आधार्य श्री रामप्रकाश

जी प्रबन्धक ग्राम्य सरस्वती शिशु मन्दिर मैंसरोली मैंनपुरी को मंत्री नियुक्त किया गया ! उन्हें समिति का पहचानपत्र प्रदान कर व केसरिया पगडी एवं तिरंगा पटका अर्पित करके सम्मानित किया गया! उस समारोह में अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश को मनपुरी एक जनपद एक प्रदेश को धर्मपुषी एक जनपर एक उत्पाद को अन्तर्गत चिन्हित एवं हस्तशिद्य के तीर घर राष्ट्रीय अन्तर्पाष्ट्रीय पहचान बना चुळी घ ध्यारकार्यो। की कलाकृति एवं मैंनपुषी की डायरियां कैलंडर मेंट किए गयी डो प्रेमकुमार चुळत ने कहा, राष्ट्रनायकों के अयाना को कियो भी हालत में चहन नहीं किया जाएगा,जहां भी उनका अपनान होगा समिति पुरजोर तिरोध करेगी!

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PUBCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.





### PAVNA INDUSTRIES LIMITED

na Locks Private Limited', as a private limited company, in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant ril 19, 1994 issued by the RoC. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Limited' and a firsh certificate of incorporation on November 13, 2000 was issued by the RoC. Thereafter, name of our Company systems Limited' and a firsh certificate of incorporation dated November 17, 2000 was issued to our Company by the RoC. Inaged to Pavan Industries Limited' and a firsh certificate of incorporation dated May 21, 2019 was issued to our Company by the RoC.

and Corporate Office: Vimlanchal, Hari Nagar, Aligarh, 202 001, Ultar Pradesh, India el: +91 8006409332; E-mail: cs@pavnagroup.com; Website: www.pavna in Ountard Person: Charu Singh, Company Secretary and Compliance Officer, Corporate Identification Number: L34100011994PLC016559

ISSUE OF UPTO 48,72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE 7 10 EACH (PRIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A 7 (\*) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 7 (\*) PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UTDO A RIGHTS BASIS TO THE EXITING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATHO OF (\*) RIGHTS EQUITY SHARE(S) F (\*) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HILD BY THE EXISTING EQUITY SHARE(S) F (\*) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HILD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON [\*) (THE

This Addendum shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing with SEBI and will be available on their we the websites of the Stock Exchanges i.e., www.nseindia.com, www.beeindia.com, the website of our Company at www.pavna.in and the website of the BRLM, i.e., PNB Invest at www.pavna.com, and the website of the BRLM, i.e., PNB Invest at www.pavna.com, and the website of the BRLM, i.e., PNB Invest.

**LINK**Intime PNB Investment Services Limited
PNB Pragast Towers, 2nd Floor,
Pilot No. Ce, 4 Giblock, Bandra Kurla Corr
Bandra (E), Mumbai – 400 051
Maharashra, 102
Tet +91 22 2653 2682
E-mail: mödlömhvid – Link Intime India Private Li C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B. S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400 083

BID ISSUE PROGRAMME
LAST DATE FOR RECEIVING REQUESTS FOR
APPLICATION FORMS

[•]



नई दिल्ली। सोमवार ● 13 मई ● 2024

स्वारा= | www.rashtriyasahara.com

मतगणना के समय सर्विस मतदाताओं से प्राप्त

### पोस्टल बैलेट की पहले होगी स्कैनिंग : अनुराग अग्रवाल

चंडीगढ़ (एसएनबी)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 25 मई को हिरायणा में होने वाले लोकरमा जुनाव के महेरकर सभी अप्रवृत्त जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिध्तत कर लें कि अंबाला स्टोर से चुनाव सामग्री ले लें। मत्रपणना से पहले सर्विस मत्रवालाओं से प्राप्त पोस्टल बेलेट की स्क्रीमा होती है, इसलिए हर 10 स्केन पर एक सहकार टिटींग अधिकारी की निर्वाचित करें। अलावा प्रस्तावित मत्रपणना की हर टेकल पर अलात से सहस्रक हरित्रीं अधिकारी की नियुक्ति की जाए और इन अधिकारियों के माम व मोबाइल तंबर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भेने जाए।

अग्रवाल ने कहा कि मत्राणान हाल में ईटीणीयींग्रस व पोस्टाल बेलट की गणना एक अंति महत्वपूर्ण पहल् है, इसिलए अधिकारियों को स्वयं इस कार्य को करता होगा। सभी मत्राणाना केंद्रों पर उच्च गुणवत्ता 100 एमबीणीएस (मोजाबाट पर सेक्ड) को लीज लाहन की व्यवस्था करवा लें। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अणिक आयु के तथा दिव्यां मत्राचता जो घर से बोट करना चाहते हैं और फ़ार्म 12 डी भरकर दिवा है उनकी जोटिंग का उत्तित प्रबंध करें और समय पर जोटिंग करवायं। आखाल ने बताया कि प्रदेश में सर्विस मत्रावताओं की सूल संख्या एक लाखा 11 हवार 55 है, इसिलिए मती की गणना के लिए स्क्रैनर के पर्यान संख्या में प्रबंध किए जाए। उन्होंने बताया कि कहा, हर दस स्कैनर पर एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी की होगी नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी अंबाला स्टोर से ले लें चुनाव सामग्री



कर्मचारी तथा गैरहाजिर मतदाता की गणना की जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारों ने बताया कि लोकसभा घोषित होने की तिथि 16 मार्च वे नामांकन दाखिल करने की तिथि 6 मई के बीच प्रदेश में एक लाख 95 इबार 662 गए मतदाता केने हैं। इसलिए इन सब का फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र भिजवाने के लिए प्रिंटर्स को समय रहते अवगत करा दें।

अग्रस्वाल ने बताया कि प्रदेश में 10 हजार 523 स्थानों पर अस्थाई महत्वन केंद्रों सहित पोरिना स्टेनों की संख्या 20 हवा 31 है। सभी जिला निर्योचन अधिकारी इन महत्वान केंद्रों पर पीने का शुद्ध पानी, महिला व पुरुषों के लिए अलान अलग शीचालयों, होट बेब को देखते हुए अविरिक्त टेंट, पंखों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करने ओआएपस सहित मेंडिकल कोट की व्यवस्था करें।

### दो बार सांसद रहीं कैलाशो सैनी ने भाजपा छोड़ थामा कांग्रेस का दामन

रोहतक (एसएनबी)। कुरुक्षेत्र से दो बार सांस्य रही कैलाशों सेनी ने पाजया अध्यक्षक सोसे ज्याइन कर लिया। पूर्व मुख्यमी वे नेषा प्रतिपक्ष भूपेट सिंस हुद्दुड़ा और कांग्रेस प्रदेश अण्यक्ष चौभरी उदयभान ने तृत्व में आस्था प्रकट करते हुए उन्होंने पार्टी को सलस्पता ग्रहण की। कैलाश सीनों के साथ उनके संकृष्टी कांग्रेस कांग्रेस के साथ उनके संकृष्टी कांग्रेस कोंग्रेस के साथ उनके संकृष्टी कांग्रेस कोंग्रेस को चामन थामा। साथ ही बेरी से विचायक रहे अश्रेस कींग्रेस कींग्रिस कींग्रेस की

हुड्डा ने सभी का पार्टी में स्वागत किया और पूर्ण मान-सम्मान का भरोसा दिलाया। हडडा ने कहा कि पिछडा वर्ग की एक

बेरी से पूर्व विधायक अजीत कादियान ने भी भाजपा छोड कांग्रेस ज्वाइन किया

और बड़ी नेता के कांग्रेस में आने से पार्टी को निश्चित ही मजबूती मिलेगी। इससे कुरुक्षेत्र समेत पूरे हरियाणा में एक बड़ा संदेश जाएगा। कांग्रेस को अजीत सिंह कादियान जैसे वरिष्ठ नेता के अनुभव का भी लाभ प्राप्त होगा।

पत्रकारों को संवीधित करते हुए कैलाशो सेनी ने कहा कि बीजेपी एक लोकतंत्र विरोधी पार्टी है और देश के संविधान को बदलना चाहती है। बीजेपी एससी और ओबीसी से आरक्षण का अधिकार छीनने की नीति पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में इस पार्टी के भीतर बने रहने का कोई ऑफिएन गर्डी था। इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने को परला लिया है। उन्होंने काह कि वह पुत्रोर तरीके से कुरुकेत और जाड़ भी पार्टी जिम्मेदारी लगाएगी, इंडि गठबंधन के लिए चुनाव प्रयार करेंगी। इस लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कोहेस की जीत वह है।

सोमनाव, प्रहलावपुर, तनमय वभवा, वेतन्य बंसल, स्रावन सीनी, वरसाम सीनी, प्रीभ सीनी, सीनी सीनी, सीनी प्रकृतार, राज्ञेव, मीतित सीने, अध्योक करेसरा, प्रकृत्ये सीनी, प्रमस्प्रण माजरा, रघुवीर सिंह, राज्ञ, डॉ.मीहंड, बलदेव, बलविंड, आमन कंत्रेव, प्राज्ञीर, बैसाखी राम, बरखा राग, जससर, मान सिंह, संबंधि पिहं, जर्तनि सिंह, खड़ींच, राज्ञीय, खड़ींच, सुमाण, सुभाष चंद, सुनील, राज्ञीय सीव आदि लोग शामिल हुए।

# चर्चा तो है

#### नइा की त्योरियां

सब टीक रहना था। खुब तैयारियां हुई। पार्टी प्रमुख के रास्ते को फूलों व पंखुड़ियां से ढक देने का मुक्नमल इंतजाय था। अकत नृतीय का दिन या. अपना परमुप्ता में बड़ी तरवीर लगाई गई। ये और है कि गुरुकुल के बेटपारी ब्राह्मणों के अवाद में शता है। ये और है कि गुरुकुल के बेटपारी ब्राह्मणों के अवादी पंजावा परपुरा के अपनित पर उनके विज्ञ पर फुल्ता मंत्रणा एकाने से मना कर दिवा था। कब एक जागरक समतनी ने पर्दी नेताओं को ज़क्कोरा, जिसके ब्याद में दे के फूलों की मालत से शतर शास के कालों के अपन्य अता अवात नहां के लुग्गणमन पर वैदिक मंत्रोच्या करने वारी हो नहीं आई। यह तक भी सब टीक था, पर बम्मुक्तल काल प्रीट राइक पर आवात्त्व भी हम देख प्रमुख्त कर पार्च के सामार्थ के आर्ट्स पर सड़क पर आवात्त्व के बात प्रमुख्त कर प्रमुख्त कर पर सहस्त के बात में पर सहक की खानांशियों ने सहां की सोरियां चढ़ा दों। ये देख अपनीय विभायक एवं स्पीत र जानी पीत वाला गाइक पर प्रमुख्त कालों में ते तर वाला माइक पर प्रमुख्त र उनते ने तर वाला माइक पर प्रमुख की नोत मंत्री ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र जाने रहु हुं और नहां ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र जान रहु हुई और नहां ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र जान रहु हुई और नहां ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र जान रहु हुई और नहां ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र जान रहु हुई और नहां ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र जान रहु हुई और नहां ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र जान रहु हुई और नहां ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र जान रहु हुई और नहां ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र जान रहु हुई और नहां ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र जान रहु हुई और नहां ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र जान रहु हुई और नहां ने तर वाला माइक पर प्रमुखन र प्रमुखन र जान र जा

#### बाईपास

राजनीति है ही ऐसी। कभी फर्श से अर्थ पर पहुंचा देती है। और...समय बदले तो वासस अर्थ से पर्भ पर ला देती है। बात करते हैं हम्पण के पूर्व सीएम महोदर लाल की सरकार में जज्ज करेट से राज्यांत्री रहे। उन्हों हम का अर्थ से एक प्रकार की अर्थ पर लाक की, को इन दिनों सावस्थ लाभ से रहे हैं। उन्हों हैं कि इस्ता डिस्टी सीएम दुर्जन चीटाला संग कदमताल मिलाने वाले राज्यांत्री अनुष् धानक का, बार साल वास महीने बाद जैसे ही राज्याट गया...पार हिट्टी...सिंग्य वास हो में। इस्ता के स्वाच प्रकार की ही। इस्ता प्रकार की में। इस्ता के साथ की स्वाच पर्भ स्वाच ही ही। साथ काम में सब्दी के लिए दाखिल पूर्व राज्यांत्री आत्र अरम्याल के प्रकार ही है। की स्वाच काम कर चुके लोग दावा करते हैं, मंत्री रहते एक बार मी स्विचन तर्हे विषयाई को सीटाई थीं, उन्होंने मानवह भी राज्यांत्री आत्र पार वा मानवह भी ही प्रवाद सी पार वा मानवह भी हो पार का जीता न करते हैं, सी एक साथ ना न करें के राप ए। अरमे...पाए दिखने लो। आवद बी वजह रही, जिसमे दिल की ऐसी चीट पहुंचाई कि अस्पताल सुर पाए। बीर, हम उनके शीड राज्यांत्र वा कामन करते हैं।

#### स्याह - सफेद

### प्रेरणादायी को सैल्यूट

पंजाब और हरियाणा की राजधानी एट केंद्र शासित प्रदेश चंडीगड़ के डीजीणी सुर्फ्ट सिंद यादव अपनी फोर्स के लिए प्रणावारी कम गढ़ है। वहुद उठावारों की हरियों में के लिए प्रणावारी कम गढ़ है। वहुद उठावारों की हरियों में के निर्ण के की उठा है। वहुद उठावारों की हरियों में के निर्ण की का उठा उठा उठा के की हैंश जुनिएस अफसरों के आमें कहा जुनिएस अफसरों ने उठाने धीडिया की एडेस करने का अनुरोध किया पर उठान्स से दर रही वाले व्याद वार्त भी वाणी मार कि लाग पर उठान्स से दर रही वाले वाल वार्त भी वाणी मार कि गए। मातालों को शावाणी दे उन्हें ही आगे कर दिया। राजस्थान से ताल्लुक रहीन वाले यादव अरुगावार प्रदेश, मंत्र, मितालुक से अर्थावार ही उठाने ही अर्था कर है का 1997 येन के आईपीएस अरुमस है। यादव ने आवार सिंहा ताला होने से की प्रकार है। उठाने के उठाने ही उठाने ही उठाने ही उठाने ही उठाने ही अरुग है के वह कि उठाने ही अरुग है के वह कि उठाने ही अरुग है के वह करने की आवार सिंहा ताला हैने से के वह प्रकार ही अरुग है। अरुग है अरुग है के वह कि उठाने ही अरुग है के वह करने की आवार करने की। वार उठाने ही अरुग है उठाने ही अरुग है के वह करने ही याद करने ही याद करने ही याद करना है। पुलिस अरुगसरा और से सिंहा के वार करने ही याद अरुग हो जी इसलिए हर जगह रियाल अरुग हो जी इसलिए हर करने ही याद करना है। पुलिस स्थान के अरुग होने ही सिंहा के वार करने ही याद करना है। पुलिस स्थान के अरुग हो जी ही सिंहा के सिंहा हो उठाने ही याद के सिंहा के सिंहा हो उठाने ही सिंहा के सिंहा हो उठाने ही सिंहा के सिंहा के सिंहा हो उठाने ही याद के सिंहा हो उठाने ही सिंहा हो उठाने ही सिंहा हो उठाने ही सिंहा हो उठाने ही सिंहा हो सिंहा हो उठाने ही सिंहा हो उठाने ही सिंहा हो उठाने ही सिंहा हो सिंहा हो उठाने ही सिंहा हो सिंहा है सिंहा हो सिंहा है सिंहा

#### छटपटाहट

न्यू सेक्रेटरिएट में एक विभाग का बड़ा दफ्तर संभारते वाले एक महस्राय छटपटाटर के दौर से गुकर रहे हैं। यूँ तो तमाम अफरस पूरी विशानी निकाल के हैं। के का वो लाख आए कि महक्त्रमें को बड़ी विभानी तमें हैं। के का वो लाख आए कि महक्त्रमें को बड़ी विभाने सीने को हो लाकी काम का वर्ष भागों है। इंड 30 बरत की सहिंदर करके सक्सी सीनियर अफरमों को कहार में शामिल होने के बाद भी उन्हें फोल्ड में मिला सुख्त ... तेन को नींद नहीं लोने दे रहा तभी ये साहब वंडीमह दे उड़ कर फील्ड में किला या मंडल सर्क के अफरम की कमान संभालकर पंख फीलो—अलाव जलाल दिखालों के बोच हैं। कोई मीका नार्य हुन हैं, हर किसी से दूरियमत करते हैं ... फर्लो अफरमर वंडीमह आता बाह रहा है, वे कोचिल में हैं सीमियर भी... उसे बुला नहीं हैं। मैं भी हमें में मा साहब हैं, हमें में की का साहब अपने हुन में आई आम दरखालांसी से भी गुलिलांस के निकाल लेने के हुन रहा वोई हो म सब खामोश हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में साहब के जेहन में पुपड़ हो तम अमसरी वाली अकुलाहट और छटपटाइट का हाला किसी है पास नहीं।

### कर्म कुंडली

शिक्षा विभाग में अफरसरों की कुस्ती सीभाले कुछ शिक्षकों के खुब करों हैं। विभाग की डोर चाहे किसी भी आईएएस के हाथ में रहे, पर जरताी इनकी हो हो जिस्मा तो है वच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था देखते का, मगर फ्रिक्शोर्सट होनी है, राय देते हैं। व्यवस्था ऐसी बता साथी हो कि हर काम के लिए खुद हो फ्रिम में फिट हो जाते हैं। नीति निर्माताओं तक को भरमा रखा है। करों है कि हर काम के लिए खुद हो फ्रेम में फिट हो जाते हैं। नीति निर्माताओं तक को भरमा रखा है। करों है कि हर काम के हिंग इस हो प्रक्रिक हो हो हो हो कि हो आई है। अप्टर ही इन कामीयार्थ को से खुत हो काम में है करी करों कुंडली बर हों। अप्टर ही इन कामीयार्थ को साथी जाह एहंचाया जाएगा।

### प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में होगी तीन से चार जनसभा

पंचकूला (एसएनबी)। हरियाणा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संबोधक एवं उपसरमा सांस्स सुभाग बराजा ने कहा कि भावण का चुनाव प्रवार अभियान भीर-भीर अभने चरम की तरफ कहा हरा है। प्रवार अभियान को और तेव पति देने के लिए केंद्रीय गुम्पंत्री अभित शाह की तीत रैलिका वय है। उत्तराखंड और उपस्थान के मुख्यमंत्री भी भी हरियाणा में जताभा करेंगे। श्यानमंत्री मेरे मेरी भी हरियाणा में जतानों के दीरा यह जानकारी दी। व्याला ने विवार को पंचकृता प्रिस्त पार्ट कार्यालय व्याला ने वाया कि केंद्रीय गुम्पंत्री अभित शाह रि कहा को स्वाराम में जत्तरभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गुम्पंत्री अभित शाह

उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 17 मई को करनाल लोकसभा और रोहतक लोकसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तीन से चार रैलियां होंगी



शलांकि अभी तिथि और समय निश्चित नहीं हुआ हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल आज असंध और कल सोमीयल लोकसमा के नुवाना और इसी दिन शान को बहहुरावृद्ध में जनसभाओं को सोबीवित करों। उत्तरपाईक मुख्यमंत्री पुकर सिंह शामी के अलावा कई बड़े नेता हरियाणा में जनसभाओं को सोबीवित करने पहुचेंगे। विवाससभा अनुसार एक रहे नृतान अभिवास पर खरावाने बेवाणां कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी दलों से पहले अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। हमारे उम्मीदवार लगातार मैदान में

कहा, मोदी लहर से घमंडिया गठबंधन के नेताओं में बढ़ रही घबराहट सैनी सरकार को कोई खतरा नहीं

है। मुख्यमंत्री नायव सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत पार्च के तामाम नेता, कार्यकर्ती, संसद्द, मंत्री और विषायक तथा उम्मीदवार मैदान में है। उन्होंने कहा कि अब 82 से ज्यादा विधानसभाओं में विजय संकरण र्रीलगां संचन हो चुकी है। देश और प्रदेश मं माहौल भाजमा के पक्ष में है। बयला प्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस, जज्ज्ञ जोर आप आदमी पार्ची पर हम्मालाय रहे। उनहोंने कहा कि हुड्डा साहब अमने चंद्र की पुनिस्थामा का खोल खेल रहे हैं। जननायक जनता पार्ची में न जन है, न नायक है और न ही पार्ची, सिर्फ परिवार बचा है। जजपा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलते हुए कहा कि केजरीवाल का तो ईमानवरी का मुखौटा उतर चुका है। घमडिया गठबंधन के नेता जनता में भ्रम फैला रहे हैं। हरियाणा की जनता राजनीति में काफी परिपक्व हैं और बंदर के हाल में उतरता नहीं देगी।

ना पनन ए जाए पर क्या पर उत्पाद में हैं था। अरविंद के क्योंवाल के बयाते के बारे में पूछे गए एक सवाल पर बोलते हुए बराला ने कहा हिन हुनाव में सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने तरीके हैं। इंडी मटार्बयन के लोग भ्रम फैला रहे हैं, के क्योंवाल ने भी उसमें नया भ्रम मोदी जी के रिटार्ट्सपेट का और जो इंटिया हैं। पूर्व भ्रमानमी जवाबर लाल ने हरू, इंटिया गांधी के समस्य में पैकुक सम्मित कानून वा लेकिन इंटिया गांधी के जोने के बाद कांग्रेस ने अपने परिवाद की सम्मित को बचाने के लिए कानून बदल दिया। कांग्रेस सदा अपने दार्था के शिवास के काम करने वाला पार्टी है। नावश्व सरकार के अल्पमत में होने के सवाल पर बराला ने कहा कि नायब सैनी सरकार को कोई खतरा नहीं है, वह पूरी तरह से स्थिर है। उन्होंने पूर्व सीएम हुइड़ा और डुण्यंत चौटाला को निशाने पर लेते हुए क्राक कि ये सरकार को मतरे टैस्ट में धेरने की बात करते है, लेकिन ये दोनों ही आपस में पिस्ट हार्र है।

लेकिन ये दोनों ही आपस में भिड़े हुए हैं। अपन ना विद्यावय सिंह चीटाला कांग्रेस पर बार जागे ना विद्यावय सिंह चीटाला कांग्रेस पर बार आपेर लाती है कि नीन चीटाला पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला कराया है। कांग्रेस और जज्या के दोगालाम को जनता जानती हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आप स्कार केटर दक्त बात कांग्रेस होने कांग्रेस कर कहा कि आप स्कार केटर दक्त बात कांग्रेस होने साम प्रकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में कांग्रेस में ऐसा पड़जिर नया गाव किससे बंगीलाल परिवास को हम साम कली दे वी और बंग्रिट सिंह को पहले कांग्रेस में शामिल कराया और उसके बाद टिकट न देकर उनकी भी उसके लेकि कर में खेल कर दिवा।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



(Please scan this QR Code to view this Addendum to the DLOF)



#### PAVNA INDUSTRIES LIMITED

Our Company was incorporated as 'Pavna Locks Private Limited', as a private limited company, in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated April 19, 1994 issued by the RoC. Subsequently, our Company was compared to 'Pavna Locks', Limited' and farsh certificate of incorporation on November 13, 2000 was issued by the RoC. Theratem, men of our Company was changed to 'Pavna Locks', Limited' and farsh certificate of incorporation dated November 17, 2000 was issued to our Company was changed to 'Pavna Eadi Security Systems Limited' and a frish certificate of incorporation dated November 17, 2000 was issued to our Company was changed to 'Pavna Idadi Security Systems Limited' and a frish certificate of incorporation dated November 17, 2000 was issued to our Company was changed to 'Pavna Idadi Security Systems Limited' and a frish certificate of incorporation dated November 17, 2000 was issued to our Company was changed to 'Pavna Idadi Security Systems Limited' and a frish certificate of incorporation dated November 17, 2000 was issued to our Company was changed to 'Pavna Idadi Security Systems Limited' and a frish certificate of incorporation dated November 17, 2000 was issued to our Company was changed to 'Pavna Idadi Security Systems Limited' and a frish certificate of incorporation dated November 17, 2000 was issued to our Company was changed to 'Pavna Idadi Security Systems Limited' and a frish certificate of incorporation dated November 17, 2000 was issued to our Company was changed to 'Pavna Idadi Security Systems Limited' and a frish certificate of incorporation dated November 17, 2000 was issued to our Company was changed to 'Pavna Idadi Security Systems Limited' and a frish certificate of incorporation dated November 17, 2000 was issued to our Company was changed to 'Pavna Idadi Security Systems Limited' and the Idadi Security Systems Limited Marchael Security Systems Limited Security Systems Limited Marchael Security Systems Limited Marchael Sec

Registered and Corporate Office: Vimlanchal, Hari Nagar, Aligarh, 202 001, Ultar Pradesh, India Tel: +91 8006409332; E-mail: sca@povnagroup.com, Website: www.pswna.in Contact Person: Churu Singh, Company Secretary and Compliance Officer; Corporate Identification Number: 1.34109UP1994PLC016359

#### OUR PROMOTERS: SWAPNIL JAIN AND ASHA JAIN PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF PAVNA INDUSTRIES LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSLER") ONLY

ISSUE OF UPTO 48.72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE 7 10 EACH ("RICHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF 7 (=) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 7 (=) PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO 7 (=) LAKIS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHARE (HID RESS OF OUR COMPANY IN THE RATIO 0 (=) IRGISTS EQUITY SHARES) FOR VEWEY (=) FILLY PAID-UP EQUITY SHARES) HER LEVEN FOR THE FAIL OF THE PRICE OF THE FAIL OF THE SHARES FOR PERFORM THE ISSUE PRICE FOR THE HERITE SOUTH SHARES FOR THE SHARES FOR THE FAIL OF THE SHARES FOR THE THE SHARES FOR THE SHARES FOR

Potential Bolders may note that the Company has, in consultation with the relevant stakeholders, decided to make certain updation in the sections stated "Summary of this Day" and "Sub-Facine" According to the Escription (1967) or "Open 1967). Facility is the Company of this Day" and "Sub-Facine" According to the Escription (1967) or "Open 1967). Facility is the Company of the Day" or "Open 1967 or "Open 1967) or "Open 1967. Facility is the Company of the Day" or "Open 1967 or "Open 1967). Facility is the Company of the Day" or "Open 1967 or "Open 1967. The Company of the Day" or "Open 1967. The Company of the Day" or "Open 1967. The Company of the Day" or "Open 1967. The Company of the Day of the Company of the Company of the Day of the Company of the Day of the Company of the Day of the Company of the Company of the Company of the Company of the Day of the Company of the Compa

I fee above changes set to be freat as complexion with the LUT side accordingly the references in the LUT side accordingly the reference in the LUT side accordingly the lut side accordingly the lut side accordingly to the LUT side accordingly the lut side accordingly the lut side accordingly to the lut side accordingly the lut side accordingly to the lut side accordingly the lut side accordingly to the lut side accordingly the lut side accordingly to the lut side a

Securities Art Ol 1935 (Securities Art ) and application is asias securities tasks. In obtaining the winter that the production of the state of the production of the state of the securities and the securities of the securities and the securities described herein in the United States or as a solicitation therein of an other to be any of the fixed Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

This Addendum shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing with SEBI and will be available on their website www.sebi.gov in the websites of the Stock Exchanges i.e., www.nseindia.com, www.beindia.com, the website of our Company at www.pavna.in and the website of the BRLM, i.e., PNB Investment Services Limite

Place: Alignth
Date: May 11, 2004

BOOK RUNNING LEAD MANAGER

BOOK RUNNING LEAD MANAGER

REGISTRAR TO THE ISSUE

LINK Internet Services Ind

PNB Propial Towers, 2nd Floor,
PNB Propial To

### 22 जिलों और 34 उपमंडलों में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

चंडीगढ़ (एसएनबी)। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने माननीय न्यायमूर्ति उसला पल्ली, न्यायाधीह, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायात्व एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अध्यक्त का शनियार को हरियाणा के 22 विचा और 34 उपमंडलों में आयोजन किया गया, जिसमें विधिल, अध्यक्तिक वैवाहिक, बैंक सम्ली, आदि से संविधित कहाँ मामले उद्याग ए। इसमें एडिआर केंद्री में कार्यस्य स्थायों लोक अध्यवत्वी (सार्वजनिक उपयोग्तित सेवाए) के मामले

भग्ना न जनसा त्याचा ताम जंचलात भी शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच पदान करना है।

पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित दोनों चरणों में लगभग दो लाख 35 हजार मामलों का निपटारा

राष्ट्रीय लोक: अदालत के दिन, मानतिया त्यावा है। उस निर्माण उच्च न्यावाल समानिय त्यावाही अरुण पल्ली, न्यावाबी, पंत्रावा एवं हिरसणा उच्च न्यावाल एवं कार्यक्री अरुण पल्ली, न्यावाबी, पंत्रावा एवं हिरसणा उच्च न्यावाल कांक्रिक्त स्वा प्राविकरण ने वीदियों कांक्रिसण के मान्या में कांक्रिसण के मान्या निर्माण उच्च के सार्वे निर्माण उच्च के सार्वे निर्माण उच्च के सार्व-साथ प्रकारों से भी बातवित की और लोक अवलत पीठों के साथ-साथ प्रकारों से भी बातवित की और लोक अवलत पीठों के रिकामित कर राष्ट्रावा कांक्रिक कांक्रिक मान्यों का निर्माण करने के लिए प्रोत्ताक्षित किया उन्होंने इस बात पर भी और लिंक अवलत पीठों के उन्हें से राष्ट्रावा करने के लिए प्रकार कांक्षित कांक्य कांक्षित कांक

से अभिक की राशि का निपटान हुआ। इक्तर एक मां और बेटे के जीय एक पुराना विवाद सुलझ गया और बेटा प्रकेच्छा रे रुप्प ऐं ने प्रसानत हो गया। उनकी मां को भरण-पोषण पत्ते के रूप में 12 हकार रुप्प प्रतिमाह मिली। हितार में पिछले चार वार्षों से लवित एक लातक वाचिका में युगान पत्र के बीच वैवाहिक विवाद को लोक अचलत पीट के व्यक्तितात प्रयासों से सीहादपूर्ण हो से समाधान किया गया। वाचिकाकता ने तलाक की व्यक्तिता वापस ले ली और दोनों पक्ष मुक्टमेबाजी को समाप्त करने के उदेश्य से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत वाचिका दायर करने पर सहस्तत हुए।

		igment dated :	5º Sej	stember, 2	riminal cases 218, of Hon'ble Supreme Court in Wi dion & Ors. Vs. Union of India & Anz.			
			: Ra	ımvir Singi	Bidhuri, resident of 1, Zalim Mohalla, Village, New Delhi-110044			
Nam	e of politic	al party	: Bh	aratiya Jar	ata Party			
Nam	e of the Ele	ection	: Lo	k Sabha Ge	neral Election 2024			
*Nar	ne of Cons	tttuency	: 07	South Delh	Parliamentary Constituency			
infor	mation the	following detail:			vementioned election, declare for publi I antecedents:			
	Name of			Status of	Section(s) of Acts concerned And			
No	Court	and date	d	case(s)	brief description of offence(s)			
1	1 ACMM, Complaint case		NOTIC	NOTICE	Section 499 of IPC, 1860.			
	ROUSE	Under section		NOT	(Complaint of defamation filed			
	Avenue,	200, CrPC und	90	FRAMED	against me and my colleagues b			
	District	Jurisdiction of	PS:		Raghav Chadda (the then Deput			
		DB Gupta Ros	1		Chairman of Delhi Jal Board) fo			
Delhi Ct Case No. 05,			l	exposing Mr. Raghav Chadha and				
		/2021	l	Delhi Jal Board for scam of Rs				
		Dated 15.03.2	021		26,000 crore in Delhi Jai Board.)			
(B) Details about case of conviction for criminal offences								
SI. Name of Court &			Descr	iption of of	lence(s) Maximum Punishment			

....